



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-02012025-259856
CG-DL-E-02012025-259856

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1078]

नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 27, 2024/पौष 6, 1946

No. 1078]

NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 27, 2024/PAUSHA 6, 1946

Hkkj rh; mi p; kl i fj "kn-
çR; kgkj vkns k

नई दिल्ली, 19 नवम्बर, 2024

Qk- l a 18&11@14792&vkbZ ul h.—समय—समय पर यथासंशोधित भारतीय उपचर्या परिषद् अधिनियम, 1947 (1947 का XLVIII) की धारा 14 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय उपचर्या परिषद् एतद्वारा निम्नलिखित आदेश जारी करती है :-

जबकि, वरदान स्कूल ऑफ नर्सिंग, परगी पेट्रोल पंप के पीछे, बायपा। jkM] Qrđjk] ftyk nkgkn&389172 %xqtjkr% गुजरात राज्य सरकार तथा गुजरात उपचर्या परिषद् द्वारा , , u, e rFkk th, u, e पाठ्यक्रम संचालित करने के लिए मान्यता प्राप्त है।

वहीं, भारतीय उपचर्या परिषद् अधिनियम, 1947 की धारा 14 के तहत मान्यता वापस लेने के लिए आयुक्त (स्वास्थ्य) और पदेन सचिव (लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण), ब्लॉक नं. 05, पहली मंजिल, पुराना सचिवालय, डॉ. जीवराज भवन, सैक्टर 10, गांधीनगर-382010, गुजरात को संबोधित नोटिस संख्या 18&11@14792&vkbZ ul h %53875% दिनांक 26-02-2024 को जारी किया गया था। दिनांक 26-02-2024 को जारी नोटिस की एक प्रति वरदान स्कूल ऑफ uÉl x] ijxh iMky iā ds ihNj ck; ikl jkM] Qrđjk] ftyk nkgkn&389172 %xqtjkr% को भी भेजी गई थी। जारी किए गए नोटिस में राज्य सरकार से नर्सिंग संस्थान की उपयुक्तता के संबंध में परिषद् को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया था।

चूंकि, वरदान स्कूल ऑफ नर्सिंग के संबंध में परिषद् को राज्य सरकार से कोई अनुशंसा प्राप्त नहीं हुई है। यहां तक कि संस्था यानी वरदान स्कूल ऑफ नर्सिंग ने भी जारी किए गए नोटिस का कोई जवाब नहीं दिया है।

वहीं, परिषद् ने इस मामले पर पूरी तरह से विचार किया है। दिनांक 23-08-2023 की निरीक्षण रिपोर्ट के अवलोकन से पता चलता है कि संस्थान में कई मामलों में कमी है, विशेष रूप से वे कमियां जो नैदानिक और शिक्षण सुविधाओं से संबंधित हैं। ये कमियां गंभीर हैं जो दर्शाती हैं कि संस्थान , , u, e rFkk th, u, e पाठ्यक्रमों का संचालन करने में असमर्थ है।

अतः, भारतीय उपचर्या परिषद् अधिनियम, 1947 की धारा 14(3)(बी) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए परिषद् यह घोषणा करती है कि दिनांक 21-05-2024 से वरदान स्कूल ऑफ नर्सिंग, परगी पेट्रोल पंप के पीछे, बायपास जंक्शन [Orisk] ftyk nkgkn&389172 %xqtjkr% से , , u, e rFkk th, u, e मान्यता प्राप्त योग्यता धारक प्रत्येक व्यक्ति केवल xqtjkr jkT; में पंजीकृत होने का हकदार होगा।

लेफ्टिनेंट कर्नल (डॉ.) सर्वजीत कौर, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./840/2024-25]

INDIAN NURSING COUNCIL

WITHDRAWAL ORDER

New Delhi, the 19th November, 2024

F. No. 18-11/14792-INC.—In exercise of the powers conferred under Section 14 of Indian Nursing Council Act, 1947 (XLVIII of 1947), the Indian Nursing Council hereby issues the following order:—

Whereas, **Vardan School Of Nursing** situated at **Behind Pargi Petrol Pump, By Pass Road, Fatepura, Distt.- Dahod, Pin Code- 389172, Gujarat** is recognized by State Government of Gujarat and Gujarat Nursing Council to conduct ANM and GNM Course.

Whereas, a notice no. 18-11/14792-INC (53875) dated **26/02/2024** for withdrawal of Recognition under section 14 of Indian Nursing Council Act, 1947 addressed to the Commissioner (Health), & Ex-Officio Secretary (Public Health & Family Welfare) Block No. 05, 1st Floor Old Sachiwalay, Dr. Jivraj Bhavan, Sector No. 10, Gandhinagar – 382010, Gujarat was issued. Copy of the notice dated 26/02/2024 was also enclosed to **Vardan School Of Nursing situated at Behind Pargi Petrol Pump, By Pass Road, Fatepura, Distt.-Dahod, Pin Code- 389172, Gujarat**. In the notice issued, the State Government was requested to submit their recommendations to the Council as respects Suitability of the nursing institution.

Whereas, the Council has not received any recommendation from the State Government as respects the case of **Vardan School of Nursing**. Even the institution, **Vardan School Of Nursing** has not responded to the notices issued.

Whereas, the Council has considered the matter in its entirety. Perusal of the inspection report dated 23/08/2023 would show that the institution is deficient in many respects especially those relating to deficiencies i.e., clinical facilities. These are serious deficiencies which constitute that the institution is unable to run ANM and GNM Course.

Now therefore, the Council exercising powers under section 14(3) (b) declares that with effect from 21/05/2024 any person holding a recognized qualification of **ANM and GNM** from **Vardan School Of Nursing situated at Behind Pargi Petrol Pump, By Pass Road, Fatepura, Distt.- Dahod, Pin Code- 389172, Gujarat** shall be entitled to be registered only in the State of Gujarat.

Lt. Col (Dr.) SARVJEET KAUR, Secy.

[ADVT.-III/4/Ext.y./840/2024-25]